



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904

No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

फा.आ. 194(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 30 मार्च, 1982 से पंचमहाल ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-14/82-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1982

S.O. 194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Bank of Baroda, establishes, with effect from the 30th March, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Panchmahal Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Panchmahal in the State of Gujarat.

[No. F. 1-14/82-RRB(I)]

फा.आ. 195(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा पंचमहाल ग्रामीण बैंक के प्रायोषक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, पंचमहाल जिले में गोधरा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहां पर पंचमहाल ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-14/82-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 195(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda, by which Panchmahal Gramin Bank has been sponsored, specifies Godhra in Panchmahal District as the place where Panchmahal Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 114/82-RRB(II)]

फा.आ. 196(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क)

के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, पंचमहाल ग्रामीण बैंक, गोधरा को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है ।

[संख्या एफ. 1-14/82-आर. आर. बी. (3)]

वी.पी. साहनी, संयुक्त सचिव

S.O. 196(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Panchmahal Gramin Bank, Godhra being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-14/82-RRB(III)]

V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

का.आ. 197(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री रमेश मनहर लाल भगत को पंचमहाल ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 20-3-1982 से प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री रमेश मनहर लाल भगत अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ. 1-14/82-आर.आर.बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

S.O. 197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Ramesh Manhar Lal Dhagat as the Chairman of the Panchmahal Gramin Bank, Godhra (Gujarat) and specifies the period commencing on the 30th March, 1982 and ending with the 31st March, 1985 as the period for which the said

Shri Ramesh Manhar Lal Dhagat shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-14/82-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आगोजना तथा ऋण कक्ष, बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 30 मार्च, 1982

का.आ. 198(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक, एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“पंचमहाल ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात)”

[आर पी सी सी संख्या 230/आई एन सी एल/311-82]

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL, BOMBAY

NOTIFICATION

Bombay, the 30th March, 1982

S.O. 198(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“Panchmahal Gramin Bank, Godhra (Gujarat)”.

[RPCC No. 230/INCL/311-82]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director